

मुद्रीकरण विकल्पों से एयरटेल की दोबारा रेटिंग

राम प्रसाद साहू मुंबई, 5 जुलाई

दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल के लिए परिचालन और मूल्यांकन दोनों मोर्चों पर कई अच्छी बातें हैं। प्रीमियम सर्विस की ओर बढ़ते छमाग, कैलेंडर वर्ष 26 की दूसरी छमाही में टैरिफ में बढ़ोतरी और अहम सेगमेंटों में बड़ी संख्या में नए ग्राहकों के जुड़ने से भविष्य में उसके राजस्व और मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है।

इसके अलावा, इस साल के आखिर में एयरटेल मनी (अफ्रीका) के आईपीओ और जियो के अनुमानित मूल्यांकन के मुकाबले कम कीमत से इस शेयर को समर्थन मिलता है। पिछले तीन महीनों में इस शेयर ने बेंचमार्क से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है और अभी यह वित्त वर्ष 27 की अपनी कमाई के 34 गुना यानी लगभग 1,910 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

चूंकि कंपनी का पूंजीगत खर्च अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और 5जी नेटवर्क शुरू करने के लिए जो निवेश करना था, वह हो गया है। इसलिए कंपनी अपने मुख्य सेगमेंट और इलाकों में कई तरह से कमाई के मौकों का फायदा उठाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में है। इससे न सिर्फ़ मुक्त नकदी प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि कंपनी को अपनी बैलेंस शीट से कर्ज घटाने में भी सहायता मिलेगी।

इलारा सिक्योरिटीज के प्रशांत

पहली छमाही में खुदरा निवेश बढ़ा

कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारतीय शेयरों में रिटेल निवेशकों का शुद्ध निवेश 57,203 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,884 करोड़ रुपये था। एक्सचेंज के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

आंकड़े से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून में भूराजनीतिक तनाव कम होने से निवेशक सावधानी के साथ चुनिंदा क्षेत्रों में फिर से लौट रहे हैं।

साल 2024 में 1.67 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड शुद्ध खरीदारी के बाद 2025 में 1,715 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली देखी गई। यह निकासी मुनाफावसूली और वैश्विक अनिश्चितता के दौर के कारण हुई।

जून में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में 1.3 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हुई और जुलाई के पहले सप्ताह में भी यह तेजी बनी हुई है।

हालांकि वैश्विक अस्थिरता की वजह से इस साल आईपीओ बाजार अब तक सुस्त रहा है। लेकिन डीमैट खाते खुलने की रफ्तार भी धीमी हुई है। मई 2026 में 22 लाख खाते खुले, जबकि पिछले छह महीनों का औसत 27 लाख था।

कोविड महामारी के दौरान बाजार के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, रिटेल निवेशकों के ट्रेडिंग के तरीके में बड़ा बदलाव आया। वर्ष 2016 से 2019 तक लगातार बिकवाली के बाद 2025 में आई थोड़ी गिरावट से पहले भारतीय बाजारों में रिटेल निवेशकों की लगातार पांच वर्षों तक शुद्ध खरीदारी देखी गई।

दूसरी ओर म्युचुअल फंड जैसे घरेलू संस्थाना निवेशकों (डीआईआई) ने पहली छमाही में भी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और 4.7 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया, जो कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में दर्ज 3.57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

खुशबू तिवारी

सवाल जवाब

शेयरों में वृद्धि के लिए कमाई में निरंतर बढ़ोतरी जरूरी : राहुल सिंह

टाटा एसेट मैनेजमेंट में इक्विटीज के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) **राहुल सिंह** का कहना है कि **भारतीय** **नीति**क **तनाव** **कम** **होने** **से** **भारतीय** **शेयर बाजारों** **को** **बढ़ावा** **मिला** **है**, लेकिन बाजार की अगली चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां कमाई की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं।

अभिषेक कुमार के साथ इमेल बातचीत में सिंह ने कहा कि अगर कर्मोडिटी की कीमतें और कम होती हैं और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रहती है, तो वित्त वर्ष 2027 में निफ्टी 50 की कमाई में बढ़ोतरी लगभग 15 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उनसे बातचीत के अंश:

पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर चिंताएं कम होने से बाजार में सुधार आ रहा है। लेकिन क्या मौजूदा मूल्यांकन और कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीदों को देखते हुए अब बाजारों के आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है ?
भू-राजनीतिक तनाव कम होने से बाजार धारणा बेहतर हुई है। इससे कॉरपोरेट लाभ और



बियाणी और यशो जैन को उम्मीद है कि टैरिफ में बढ़ोतरी और प्रीमियम सेवाओं की वजह से वित्त वर्ष 26-29 के दौरान प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) में 7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पोस्टपेड अपग्रेड, 4जी और 5जी पर माइग्रेशन और बंडल ऑफर से कमाई बढ़ाने में मदद मिलती रहेगी।

5जी के बढ़ते इस्तेमाल और डेटा की ज्यादा खपत के साथ-साथ कम दूरसंचार टैरिफ की वजह से टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कंपनियों को कीमतें तय करने की ताकत मिलेगी और लंबे समय में एआरपीयू में बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि भारती एयरटेल अपनी बेहतर लाभांश नीति, स्ट्रक्चरल रिटर्न रेश्यो में बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती कमाई के दम पर मूल्यांकन की दोबारा रेटिंग के लिए मजबूत दावेदार है।

उसने एयरटेल को खरीद की रेटिंग

दी है और लक्ष्य 2,427 रुपये तय किया है।

कंपनी का ध्यान भारत और अफ्रीका दोनों जगहों पर डेटा सेंटर बढ़ाने, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने, सॉवरिन क्लाउड सेवा देने और इंडस टावर्स और एयरटेल मनी (अफ्रीका) में हिस्सेदारी बढ़ाने पर है। इससे उसके लिए फंड जुटाने या कमाई के कई रास्ते खुलते हैं। कंपनी कैलेंडर वर्ष 26 में अपने अफ्रीका मोबाइल मनी बिजनेस की सार्वजनिक सूचीबद्धता से 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है। सीएलएसए रिसर्च के अनुसार आईपीओ में एयरटेल मनी का मूल्यांकन 10 अरब डॉलर आंका गया है, जो 2021 के मुकाबले चार गुना ज्यादा है और एयरटेल अफ्रीका के बाजार पूंजीकरण का 60 फीसदी है।

एयरटेल मनी का वित्त वर्ष 26 में

	बिक्री	एबिटा	शुद्ध लाभ
वित्त वर्ष 27 ई	2,40,691	1,37,696	38,547
सालाना बदलाव (%)	14.1	15.1	44.4
वित्त वर्ष 28 ई	2,69,814	1,55,886	49,840
सालाना बदलाव (%)	12.1	13.2	29.3
वित्त वर्ष 29 ई	2,95,857	1,72,277	60,214
सालाना बदलाव (%)	9.7	10.5	20.8
ई : अनुमान	स्रोत : ब्लूमबर्ग के अनुमान	संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो	

राजस्व 36 फीसदी बढ़कर 1.4 अरब डॉलर हो गया। उसका परिचालन मुनाफा 31 फीसदी बढ़कर 68.9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। एयरटेल के सबसे बड़े बाजार नाइजीरिया में मोबाइल मनी का इस्तेमाल अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ा है और वहां सिर्फ 27 लाख ग्राहक हैं। इसलिए इस कारोबार में जबरदस्त वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। सीएलएसए ने इसे आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और इसकी लक्षित कीमत 2,310 रुपये तय की है। मूल्यांकन के मामले में नोमूरा रिसर्च का मानना ​​है कि एक प्रीमियम ऑपरेटर का अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम कीमत पर होना सही नहीं है। लिहाजा, इससे इसमें अच्छी बढ़त की संभावना दिखती है। 2,355 रुपये की ऊंची लक्षित कीमत के साथ यह कंपनी इस सेक्टर में उसकी पहली पसंद है।

ब्रोकरेज फर्म के विनीत बंका और अभिषेक भंडारी ने बताया कि एयरटेल के बाजार पूंजीकरण में उसके अफ्रीका, इंडस और नेक्स्ट्रा

होलिंग्स के मूल्यांकन को समायोजित करने के बाद मौजूदा कीमत पर भारत में उसके दूरसंचार कारोबार की अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू और परिचालन मुनाफे का अनुपात (वित्त वर्ष 28 के लिए) 9.3 गुना है। यह जियो, जो सूचीबद्ध नहीं है, के संभावित मूल्यांकन के 12.2 गुना मल्टीपल से काफी कम है। ऐसा तब है जब एयरटेल का एआरपीयू वित्त वर्ष 26 में 257 रुपये था जबकि जियो का 214 रुपये। साथ ही उसका मार्जिन और मुक्त नकदी प्रवाह भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि एक प्रीमियम ऑपरेटर का अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम कीमत पर होना सही नहीं है। लिहाजा, इससे इसमें अच्छी बढ़त की संभावना दिखती है। 2,355 रुपये की ऊंची लक्षित कीमत के साथ यह कंपनी इस सेक्टर में उसकी पहली पसंद है।

एनएसई शुरू करेगी क्वांटो क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव

पृष्ठ-1 का शेष

जानकारों का कहना है कि इससे रुपया आधारित पेयर्स यानी भारतीय मुद्रा के साथ एक विदेशी मुद्रा की जोड़ी के अलावा दूसरे अनुबंधों का दायरा बढ़ाकर एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी (करेंसी डेरिवेटिव) कारोबार दोबारा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

एक विशेषज्ञ ने कहा, ‘पिछले छह महीनों से बाजार में इस बात पर चर्चा हो रही है कि एक्सचेंजों को यूरो-डॉलर, पाउंड-डॉलर और डॉलर-येन जैसी गैर भारतीय मुद्रा जोड़ी में क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव की पेशकश करने की इजाजत दी जानी चाहिए।’

एक सरकारी बैंक के विदेशी मुद्रा डीलर ने कहा, ‘बाजार का मानना ​​है कि रुपये के अलावा क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव की इजाजत देने से एक्सचेंजों पर कारोबारी

गतिविधियां फिर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।’ एनएसई की तरफ से यह पहल ऐसे समय में हुई है जब अप्रैल 2024 के बाद से करेंसी डेरिवेटिव में कारोबार में भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2024 में आरबीआई ने करेंसी डेरिवेटिव खंड में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मुद्रा में ‘अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर’ (यानी विदेशी मुद्रा में वास्तविक लेन-देन या जोखिम) का सबूत देना अनिवार्य कर दिया था।

आरबीआई की शर्त का सीधा मतलब यह था कि एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले रुपया डेरिवेटिव

लेन-देन का इस्तेमाल केवल हेजिंग (जोखिम से बचाव) के मकसद से और कारोबार के सबूत के साथ ही किया जा सकता था।

इस नियम के कारण एनएसई पर करेंसी डेरिवेटिव के औसत दैनिक कारोबारी मात्रा (एडीटीवी) में भारी

आने वाले समय में शेयर की दिशा वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजों और नए कारोबार में निवेश और प्रगति से तय होगी। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में उसका प्रदर्शन वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही जैसा ही रहने की उम्मीद है। तब उसने पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 15.7 फीसदी की एकीकृत राजस्व वृद्धि और परिचालन मुनाफे में 16.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की थी। जून तिमाही में सालाना आधार पर एकीकृत राजस्व और परिचालन मुनाफे में वृद्धि 17 फीसदी रहने का अनुमान है। क्रमिक आधार पर भारती एयरटेल के भारत में वायरलेस राजस्व में 2.5 फीसदी और परिचालन मुनाफे में 2.6 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

जेएम फाइनैशियल रिसर्च के अनुसार इस बढ़ोतरी की वजह 40 लाख नए मोबाइल ब्रांडबैंड ग्राहक, वायरलेस ग्राहकों की संख्या में अच्छी बढ़त और एआरपीयू में तिमाही आधार पर 1.5 फीसदी की संभावित वृद्धि होगी। एआरपीयू में यह बढ़ोतरी तिमाही में एक दिन ज्यादा होने, लगातार अपग्रेड और बेहतर ग्राहक मिक्स की वजह से होगी। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि नियमित टैरिफ बढ़ोतरी और कई प्रीमियम बनाने वाली रणनीतियों के कारण वित्त वर्ष 26-28 के दौरान उद्योग का वायरलेस एआरपीयू सालाना 12 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। उसने 2,450 रुपये की लक्षित कीमत के साथ खरीद की रेटिंग दी है।

गिरावट आई। यह कारोबार मार्च 2024 में 33,165 करोड़ रुपये से गिरकर अप्रैल और मई 2024 में क्रमशः 12,100 करोड़ रुपये और 5,258 करोड़ रुपये रह गया। इसके बाद तो इसमें और कमी आ गई।

जून 2026 में मुद्रा डेरिवेटिव के लिए औसत दैनिक कारोबारी मात्रा लगभग 5,000 करोड़ रुपये थी। इसके उलट, बीएसई पर करेंसी डेरिवेटिव कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है और जनवरी 2025 से वहां यह शून्य रह गया है। एक ब्रोकरेज कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इसका मकसद विनियमित एक्सचेंजों पर ऐसी योजनाएं पेश करनी है जिससे ऐसी कारोबारी गतिविधि आकर्षित करने में मदद मिल सके जो अभी एक्सचेंज ढांचे के बाहर होती है, खासकर नियामकीय बदलाव के बाद रुपये के करेंसी डेरिवेटिव में कारोबार कम होने के पश्चात।’

इसके उलट, बीएसई पर करेंसी अधिकारी ने कहा, ‘इसका मकसद विनियमित एक्सचेंजों पर ऐसी योजनाएं पेश करनी है जिससे ऐसी कारोबारी गतिविधि आकर्षित करने में मदद मिल सके जो अभी एक्सचेंज ढांचे के बाहर होती है, खासकर नियामकीय बदलाव के बाद रुपये के करेंसी डेरिवेटिव में कारोबार कम होने के पश्चात।’

व्यस्त महीने की धीमी शुरुआत

हफ्ते आईपीओ बाजार में सुस्ती रहने की उम्मीद है क्योंकि मुख्य प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुसुमगर (इंजीनियर्ड सिंथेटिक फैब्रिक बनाने वाली कंपनी) का ही आईपीओ खुलने वाला है। महीने के आखिर में बाजार में हलचल बढ़ने की उम्मीद है। तब सात से आठ

सकती है। इस महीने दो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) भी बाजार में आने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कुसुमगर 40.3 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हाल में नैक पैकेजिंग और आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ, जो पिछले हफ्ते बंद हुए थे, को क्रमशः 83 गुना और 5.05 गुना आवेदन मिले।

सकती है। इस महीने दो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) भी बाजार में आने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कुसुमगर 40.3 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हाल में नैक पैकेजिंग और आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ, जो पिछले हफ्ते बंद हुए थे, को क्रमशः 83 गुना और 5.05 गुना आवेदन मिले।

जून तिमाही के नतीजों के सीजन से आपको क्या उम्मीदें हैं ?
नतीजों का सीजन यह तय करने के लिए अहम होगा कि बाजार की धारणा में हाल में आए सुधार फंडामेंटल पर आधारित हैं या नहीं।

बाजार हलचल

पुराने एक्सचेंज, नई उम्मीदें

पिछले साल दीवाली के समय बंद होने की आशंकाओं से लेकर इस साल उम्मीद की किरण के बीच कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कुछ लोग इसके फिर से शुरू होने की संभावना देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 118 साल पुराने इस एक्सचेंज को फिर से शुरू करने के संकेत के बाद असूचीबद्ध बाजार में इसके शेयरों में तेजी आई है। जून से पहले करीब 1,500 रुपये की कीमत वाले शेयर के भाव अब कुछ खास असूचीबद्ध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर 2,000 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गए हैं। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी कम है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इसे दोबारा जल्द शुरू करना मुश्किल काम होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है और यह सेक्टर अब पूरी तरह से टेक्नॉलॉजी और लिक्विडिटी पर आधारित इकोसिस्टम बन चुका है।

निफ्टी : अहम समर्थन स्तर 24,150

पिछले हफ्ते भारतीय शेयरों में लगातार चौथी साप्ताहिक बढ़त देखी गई। तेल की कीमतों में कमी और रुपये व विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का सहारा देने के हालिया उपायों से बाजार का मूड बेहतर हुआ। मार्च से लगातार बिकवाली करने वाले एफपीआई जुलाई में खरीदार बन गए हैं। मानसून की चाल और जून तिमाही के नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। एस्बीआई सिक्योरिटीज ने टैक्निकल और डेरिवेटिव शोध के प्रमुख सुदीप शाह ने कहा, निफ्टी अपने 20,50 और 100-दिने के ईएमए से ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि कुल मिलाकर मोटे तौर पर कुल बाजार का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। इसके अलावा, डेली रिजल्टिव स्ट्रेच इंडेक्स (आरएसआई) 60 के स्तर से ऊपर चला गया है, जो तेजी के रफ्तार मजबूत होने का संकेत है। आगे चलकर, 24,400–24,450 का स्तर अहम प्रतिरोध जोन के तौर पर काम कर सकता है। अगर यह 24,450 के स्तर को पार कर जाता है तो अल्पावधि में 24,700 और उसके बाद 24,900 तक की तेजी शुरू हो सकती है। नीचे की तरफ 24,150–24,100 पर तात्कालिक समर्थन मिल सकता है।

संकलन : सुंदर सेतुरामन और खुशबू तिवारी

स्ट्रुक्च एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप, कॉरपोरेट सेंटर,
द आर्केड, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400005

**ई-नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों
(अनुमत स्थानान्तरणकर्ता एनबीएससी/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एआरसी) को
स्ट्रुक्च लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण**

भारतीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामकों द्वारा जारी लागू विनियमों के अधीन, 1 खाले के ₹19.09 करोड़ (मात्र उद्देश्य करोड़ नौ लाख रुपये) के मूल निधि आधारित बकाया के स्ट्रुक्च लोन एक्सपोजर के हस्तांतरण हेतु 'जैसा है जहाँ है' , 'जैसा है वैसा है' , 'जो कुछ है वहीं' , और 'बिना किसी उत्तरदायित्व के आधार पर' ई-नीलामी के माध्यम से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें. पात्र प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-प्रकटीकरण समझौता (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) निष्पादित करें। यदि गैर-प्रकटीकरण समझौता निष्पादित नहीं होता है, तो कृपया ई-मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें। कृपया बैंक की वेब साइट <https://sbi.bank.in> पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC&DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस).

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी चरण पर प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे न बढ़ाने या ई-नीलामी की तिथि अथवा किसी भी नियम व शर्तों में बिना कोई कारण बताए बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना <https://sbi.bank.in> वेबसाइट पर "SBI in the news > Auction Notices > ARC & DRT" लिंक के तहत संशोधन सूचना (Corrigendum) के रूप में दी जाएगी. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और गायधकारी होगा.

स्थान: मुंबई

तिथि: 06.07.2026

द्वारा जारी

उप- महाप्रबंधक (क्रेडिट और एआरसी)

सार्वजनिक सूचना	
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कोर्पोरेट देयदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) विषय, 2019 के नियम 9 (1) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 130 के तहत)	
सूची आरटी के लेनदारों के अवधानार्थ (मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का व्यक्तिगत गारंट)	
एन/द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, न्यायालय - क्व नई दिल्ली ने 30 जून 2026 को 53, जोर बाग, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में रहने वाले श्री शंजय सिंघल के खिलाफ शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (एससीएलटी की वेबसाइट पर 02 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया।)	
सूची आरटी सिंघल के लेनदारों से कहा जाता है कि वे 13 जुलाई 2026 को या उससे पहले जोटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेस एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में दिवाल्यापन ट्रस्टी को प्रमाण के साथ अपना दावा प्रस्तुत करें।	
लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 होगी। लेनदार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दिवाल्यापन ट्रस्टी के अतिरिक्त विवरण इस प्रकार हैं:	
दिवाल्यापन ट्रस्टी का नाम	श्री सुरेंद्र राज गंग
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या।	IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-2018/11773
दिवाल्यापन ट्रस्टी का पता	जीटी ईस्टवर्क्स सर्विसेस एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
दिवाल्यापन ट्रस्टी का ईमेल पता	BT.SSsingal1@gmail.com तथा Surendra.Raj@in.gt.com
दिवाल्यापन ट्रस्टी का फोन नंबर	+91 97173 90678

नोट : प्रमाण के साथ जुड़े या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास होगा। नोट : माननीय एससीएलटी के 30 जून 2026 के आदेश के अनुसार, माननीय एससीएलटी के 17 अप्रैल 2026 के पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है, और तदनुसार माननीय एससीएलटी के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2026 के अनुसार में श्रीमती आरती सिंघल की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में अयोधरत्नाश्री द्वारा जारी 04 मई 2026 को पहले की सार्वजनिक सूचना को वापस ले लिया गया है।

सुरेंद्र राज गंग
आईबीबीआई पंजीकरण **से**. IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-2018/11773
एफएफ 30 जून 2027 तक वैध
श्री संजय सिंघल की दिवाल्यापन प्रक्रिया के मामले में दिवाल्यापन ट्रस्टी (भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का व्यक्तिगत गारंट)
आईबीबीआई के साथ प्रभावशाली का पता और पंजीकृत
जीटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी- Surendra.raaj@in.gt.com
दिनांक: 06 जुलाई 2026
स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना	
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कोर्पोरेट देयदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) विषय, 2019 के नियम 9 (1) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 130 के तहत)	
श्री संजय सिंघल के लेनदारों के अवधानार्थ (मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का व्यक्तिगत गारंट)	
एन/द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, न्यायालय - क्व नई दिल्ली ने 30 जून 2026 को 53, जोर बाग, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में रहने वाले श्री संजय सिंघल के खिलाफ शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (एससीएलटी की वेबसाइट पर 02 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया।)	
सूची आरटी सिंघल के लेनदारों से कहा जाता है कि वे 13 जुलाई 2026 को या उससे पहले जोटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में दिवाल्यापन ट्रस्टी को प्रमाण के साथ अपना दावा प्रस्तुत करें।	
लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 होगी। लेनार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दिवाल्यापन ट्रस्टी के अतिरिक्त विवरण इस प्रकार हैं:	
दिवाल्यापन ट्रस्टी का नाम	श्री सुरेंद्र राज गंग
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या।	IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-2018/11773
दिवाल्यापन ट्रस्टी का पता	जीटी ईस्टवर्क्स सर्विसेस एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
दिवाल्यापन ट्रस्टी का ईमेल पता	BT.SSsingal1@gmail.com तथा Surendra.Raj@in.gt.com
दिवाल्यापन ट्रस्टी का फोन नंबर	+91 97173 90678

नोट : प्रमाण के साथ जुड़े या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास होगा। नोट : माननीय एससीएलटी के 30 जून 2026 के आदेश के अनुसार, माननीय एससीएलटी के 17 अप्रैल 2026 के पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है, और तदनुसार माननीय एससीएलटी के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2026 के अनुसार में श्री संजय सिंघल की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में अयोधरत्नाश्री द्वारा जारी 04 मई 2026 को पहले की सार्वजनिक सूचना को वापस ले लिया गया है।

सुरेंद्र राज गंग
आईबीबीआई पंजीकरण **से**. IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-2018/11773
एफएफ 30 जून 2027 तक वैध
श्री संजय सिंघल की दिवाल्यापन प्रक्रिया के मामले में दिवाल्यापन ट्रस्टी (भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का व्यक्तिगत गारंट)
आईबीबीआई के साथ प्रभावशाली का पता और पंजीकृत
जीटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, एल41, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी- Surendra.raaj@in.gt.com
दिनांक: 06 जुलाई 2026
स्थान: नई दिल्ली